


विशेष रिपोर्ट

एनर्जी

(फरवरी 2023)



Moneywise. Be wise.



स्रोत: रायटर्स एवं एसएमसी रिसर्च

जनवरी में, कच्चे तेल की कीमतें मामूली गिरावट के साथ काफी कम दायरे में कारोबार किया क्योंकि बाजार फेडरल रिजर्व की बैठक और चीन में संभावित आर्थिक सुधार से अधिक संकेत की उम्मीद कर रहा था। जनवरी में ओपेक के तेल उत्पादन में गिरावट के कारण कीमतों को कुछ समर्थन मिला, क्योंकि रॉयटर्स सर्वेक्षण के अनुसार इराकी निर्यात में गिरावट हुई और नाइजीरियाई उत्पादन में सुधार नहीं हुआ और इस कारण 10 ओपेक सदस्यों ने ओपेक+ द्वारा लक्षित मात्रा के नीचे 920,000 बैरल प्रति दिन उत्पादन किया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जनवरी में चीनी व्यापार गतिविधि अपेक्षा से अधिक बढ़ी जिससे पता चलता है कि देश की अर्थव्यवस्था स्पष्ट रूप से सुधार की राह पर थी, क्योंकि इसने महीने में सबसे अधिक सख्त कोविड प्रतिबंधों में ढील दी। आंकड़ों ने इस सेंटिमेंट को आगे बढ़ाने में मदद की है कि चीन में आर्थिक सुधार 2023 में कच्चे तेल की मांग में वृद्धि करने में मदद करेगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने हाल ही में अनुमान लगाया है कि चीन की रिकवरी के साथ ही 2023 में कच्चे तेल की मांग रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच जाएगी। लेकिन फरवरी महीने की शुरुआत में केंद्रीय बैंक की कई बैठकों की उम्मीद और निकट-अवधि की आपूर्ति के कारण तेल की कीमतों में की कीमतों में बढ़त सीमित रही।

आउटलुक

- वैश्विक मंदी, उच्च मुद्रास्फीति और ब्याज दरों में बढ़ोतरी और साथ ही मौजूदा भू-राजनीतिक घटनाक्रमों की आशंकाओं के कारण तेल की कीमतों में अस्थिरता जारी रह सकती है।
- उत्पादक समूह ओपेक+ ने अक्टूबर में संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों को नाराज कर दिया जब उसने ईंधन की कीमतों में कटौती करने और वैश्विक अर्थव्यवस्था की मदद करने के बजाय नवंबर से 2023 तक प्रति दिन 2 मिलियन बैरल उत्पादन में कटौती करने का फैसला किया, जैसा कि अमेरिका ने सलाह दी थी।
- सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री ने कहा उनका देश अपने ओपेक+ समकक्षों के साथ कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध होने से पहले तेल की बढ़ती मांग के स्पष्ट संकेतों की प्रतीक्षा कर रहा है, साथ ही चेतावनी दी कि वर्तमान वैश्विक भू-राजनीति और निवेश की कमी के कारण आपूर्ति की कमी हो सकती है।
- हाल के सप्ताहों में कुछ प्रमुख उपभोक्ता देशों से और चीन के फिर से खुलने और उत्साहजनक आर्थिक आंकड़ों के कारण आने वाले महीनों में तेल बाजार के पूर्वानुमानकर्ताओं को मजबूत मांग का अनुमान लगाने के लिए प्रेरित किया है, लेकिन प्रिंस अब्दुलअजीज बिन सलमान ने रियाद में एक ऊर्जा अर्थशास्त्र सम्मेलन में कहा कि उन्हें अभी आश्वस्त होना बाकी है।
- अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन ने कहा कि नवंबर में अमेरिकी कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की मांग 178,000 बैरल प्रति दिन बढ़कर 20.59 मिलियन बैरल प्रति दिन हो गई, जो अगस्त के बाद सबसे अधिक है।
- यूरोपीय संघ-अंतर्राष्ट्रीय जी 7+ गठबंधन की मूल्य-सीमा के साथ-5 फरवरी 2023 से समुद्री रूसी पेट्रोलियम उत्पादों (जैसे डीजल और ईंधन तेल) पर लागू किया गया है। रूस के युद्ध के लिए राजस्व को कम करने के लिए पश्चिम द्वारा जीवाश्म ईंधन के निर्यात पर लगायी गई मूल्य-सीमा ठीक दो महीने बाद प्रतिबंध प्रभावी होगी।
- एसएंडपी ग्लोबल क्रेडिटिटी इनसाइट्स के अनुसार, संयुक्त उपायों से मार्च तक रूस के तेल उत्पादन में 500,000 बैरल/दिन की कमी होने की उम्मीद है, लेकिन इसमें से लगभग 270,000 बैरल/दिन 2023 के अंत तक वापस आ जाएगा क्योंकि बाजार रूसी बैरल के व्यापार और शिपिंग की बाधाओं से उबरने के तरीके तलाश रहा है।



स्रोत: रॉयटर्स



स्रोत: रॉयटर्स

फरवरी 2023 में, कच्चे तेल की कीमतें 5800-6600 के दायरे में उठापटक के साथ कारोबार कर सकती हैं, जहां निकट सपोर्ट स्तर पर खरीदना और रेजिस्टेंस पर बिकवाली करना बेहतर रणनीति होगी।

नेचुरल गैस

जनवरी में, नेचुरल गैस की कीमतों में नाइमेक्स और एमसीएक्स पर 40% से अधिक की गिरावट हुई, क्योंकि 2022/23 की सर्दियों की असामान्य रूप से गर्म शुरुआत के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका में मानक की तुलना में हीटिंग की मांग काफी कम हो गई है, जिससे भंडारण में पहले की तुलना में अधिक बढ़ोतरी है। ऊर्जा सूचना प्रशासन के आंकड़ों के अनुसार कमजोर खपत के कारण, 27 जनवरी को समाप्त सप्ताह में, अमेरिकी गैस भंडारण 2.583 ट्रिलियन क्यूबिक फीट था, जो एक साल पहले के 2.361 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के स्तर से 9.4% अधिक था। इस महीने के अंत में कड़ाके की ठंड के बढ़ते पूर्वानुमान के बावजूद मौसम में गर्मी और भंडारण से कम निकासी के कारण गैस की कीमतें अगस्त में 10 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू के 14 साल के उच्च स्तर से गिरकर दिसंबर में 7 डॉलर और इस महीने 2 डॉलर के स्तर पर पहुंच गईं।

आउटलुक

- अमेरिका स्थित वैश्विक पूर्वानुमान प्रणाली और यूरोपीय मॉडल सहित प्रमुख मौसम पूर्वानुमान मॉडल में दिखाया गया है कि ठंड के मौसम की बढ़ती घटना देश के दक्षिणी मैदानों और दक्षिण पूर्व क्षेत्र को सार्थक रूप से प्रभावित किए बिना उत्तरी अमेरिका के कुछ हिस्सों तक सीमित होगी। देश।
- यूरोप में नेचुरल गैस के भंडार के रिकॉर्ड-उच्च स्तर पर है जबकि सर्दियों के मौसम का अंत होने वाली है।
- यदि यूरोपीय यूनियन अपने भंडारण लक्ष्यों को पूरा करना चाहता है तो यूनियन को गैस की मांग के 5 साल के औसत से 13 प्रतिशत कम रहने की संभावना है।
- यूरोप में, अभी तक उम्मीद से कम सर्दी का मतलब है कि पिछले साल के अंत में उच्च गैस भंडारण स्तर का पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया है। रिपोर्ट बताती है कि जनवरी के अंत में भंडारण लगभग 72% भरा हुआ था, जो वर्ष के इस समय के लिए पाँच साल के औसत 54% से अधिक था।
- ऊर्जा सूचना प्रशासन के अनुसार, अमेरिकी गैस उत्पादन पिछले दो वर्षों में बढ़ा है, जिसके कारण उच्च मांग के जवाब में पर्याप्त आपूर्ति उपलब्ध हो गई है। इस वर्ष भी उत्पादन में वृद्धि जारी रहेगी।



स्रोत: रॉयटर्स



स्रोत: रॉयटर्स

एमसीएक्स में नेचुरल गैस की कीमतें उच्च अस्थिरता के साथ कारोबार कर सकती हैं। कीमतों को 240 पर रेजिस्टेंस है। सपोर्ट 170 के करीब देखा जा रहा है।

आप इस रिपोर्ट को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं- www.smctradeonline.com



Corporate Office:
11/6B, Shanti Chamber,
Pusa Road, New Delhi - 110005
Tel: +91-11-30111000
www.smcindiaonline.com

Mumbai Office:
Lotus Corporate Park, A Wing 401 / 402, 4th Floor,
Graham Firth Steel Compound, Off Western
Express Highway, Jay Coach Signal, Goreagon
(East) Mumbai - 400063
Tel: 91-22-67341600, Fax: 91-22-67341697

Kolkata Office:
18, Rabindra Sarani, Poddar Court,
Gate No-4, 5th Floor, Kolkata-700001
Tel.: 033 6612 7000/033 4058 7000
Fax: 033 6612 7004/033 4058 7004

एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोमिटीज लिमिटेड (जिसे एसएमसी कहा जाता है) का नियमन भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा किया जाता है और इसे ब्रोकिंग व्यवसाय, डिपॉजिटरी सेवाओं और संबंधित सेवाओं करने का लाइसेंस प्राप्त है। एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोमिटीज लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बीएसई लिमिटेड, एमएसईआई (मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) का रजिस्टर्ड सदस्य है और एम/एस एसएमसी कॉमिट्टेड नेशनल कमांडिटी एवं डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड और मल्टी कमांडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया और भारत के अन्य कमांडिटी एक्सचेंजों का रजिस्टर्ड सदस्य है। इसकी सहयोगी एमसीएक्स स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड को सदस्य हैं। एसएमसी सीडीएसएल (CDSL) और एनएसडीएल (NSDL) के साथ डिपॉजिटरी भागीदार के रूप में भी रजिस्टर्ड है। एसएमसी के अन्य एसोसिएट सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मर्चेंट बैंकर, पोस्टफॉलियो मैनेजर के रूप में रजिस्टर्ड है। यह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में एएमएफआई (AMFI) में भी रजिस्टर्ड है।

एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोमिटीज लिमिटेड सेबी (रिसर्च एनॉलिसिस) रेगुलेशन 2014 के तहत रिसर्च एनॉलिसिस के लिए रजिस्ट्रेशन संख्या INH100001849 के साथ रजिस्टर्ड संस्था है। एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोमिटीज लिमिटेड या इसके सहयोगियों को सेबी द्वारा अन्य किसी रेगुलेटरी एंथॉरिटी द्वारा सिन्क्रोमिटीज मार्केट/कमांडिटी मार्केट में कारोबार के लिए प्रतिबंधित/निलंबित नहीं किया गया है। रिपोर्ट में रिसर्च एनॉलिसिसों द्वारा व्यक्त की गई राय केवल सार्वजनिक रूप से प्राप्त सूचनाओं/इंटरनेट आंकड़ों/अन्य विश्वसनीय स्रोतों, जिन्हें सत्य माना जाता है, पर आधारित है। एसएमसी रिपोर्ट में व्यक्त राय या सामग्री की शुद्धता को लेकर कोई आश्वासन नहीं देता है और निवेशकों को सलाह दी जाती है कि निवेश के लिए कोई भी निर्णय करने से पहले बाजार की परिस्थितियों/जोखिमों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करें। रिसर्च एनॉलिसिस, जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस रिपोर्ट में विशेष कमांडिटी के संदर्भ में व्यक्त किया गया विचार/राय उनके निजी स्वतंत्र विचार/राय है।

दिसक्लेमर: यह रिसर्च रिपोर्ट अधिकृत प्राप्तकर्ता की व्यक्तिगत सूचना के लिए है और इसका निवेशक को किसी निवेश, विधिक एवं कर संबंधी परामर्श से संबंध नहीं है। यह केवल प्राइवेट सन्कुलेशन एवं उपयोग के लिए है। यह रिपोर्ट विश्वसल सूचनाओं पर आधारित है लेकिन यह पूरी तरह सही और पूर्ण है, ऐसा जरूरी नहीं और इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के कन्टेन्ट के आधार पर कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। इस रिपोर्ट को एसएमसी से लिखित आज्ञा के बिना किसी भी रूप में नकल एवं किसी भी अन्य व्यक्ति को पुनः वितरण नहीं किया जाना चाहिए। इस सामग्री का कन्टेन्ट सामान्य है और यह न तो पूरी तरह से व्यापक है और न विस्तृत है। इस रिपोर्ट के आधार पर उठाये गये किसी कदम से होने वाली क्षति या नुकसान के लिए न तो एसएमसी और न इसका कोई संबंधी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। यह कोई व्यक्तिगत अनुमोदन नहीं करता या किसी खास निवेश उद्देश्य, वित्तीय स्थिति या किसी व्यक्तिगत ग्राहक या कॉर्पोरेट या सत्ता को ज़रूरतों को लेकर नहीं चलता है। सभी निवेश जोखिमपूर्ण होते हैं एवं पिछला प्रदर्शन भविष्य के किसी प्रदर्शन की गारंटी नहीं देता है। निवेश की वैल्यू और उससे प्राप्त आमदनी एक निरिचित समय में उपलब्ध कुछ बढ़े एवं सूक्ष्म कारकों के बदलाव पर निर्भर कर सकती है। निवेश का निर्णय लेते समय किसी भी व्यक्ति को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।

कृपया ध्यान रखें कि हम या हमारा कोई अधिकारी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी, जो भी इस रिपोर्ट को बनाने या भेजने में शामिल है उसको (अ) समय-समय पर किसी भी कमांडिटीज में, जिनका इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, खरीद या बिक्री, कोई भी पोषितन हो सकती है और वह इस कमांडिटीज को खरीद या बिक्री कर सकता है या (ब) साथ ही साथ वह इन कमांडिटीज के किसी भी प्रकार के सौदों में और ब्रोकरेज या अन्य प्रकार के प्रतिकर में अथवा बाजार निर्माण में शामिल हो सकता है, (स) इस रिपोर्ट में दिए गये सुझावों और संबंधित सूचनाओं एवं विचारों के संदर्भ में इनका अपना कोई भी निहित स्वार्थ या विवाद हो सकता है। सभी विवादों का निपटारा ऑरिजिन से दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीन होगा।

रिपोर्ट
एनआई